

RSWM/SECTT/2024

July 26, 2024

BSE Limited Corporate Relationship Department, 1st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building, P.J. Towers, Dalal Street, MUMBAI - 400 001. Scrip Code: 500350	National Stock Exchange of India Limited Listing Department, Exchange Plaza, C-1, Block - G, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), MUMBAI - 400 051. Scrip Code: RSWM
---	--

Sub: Submission of Newspaper Notice regarding proposed transfer of Equity Shares to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority.

Dear Sir,

Please find enclosed herewith copy of Notice published in the English Newspaper i.e. “Business Standard” all editions and in Hindi Newspapers i.e. “Business Remedies” & “Nafa Nuksan” Jaipur editions on 26th July, 2024 in respect of proposed transfer of Equity Shares of the Company for which dividend has not been claimed for seven consecutive years to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority, in accordance with Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended.

The above filing is in pursuant to Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **RSWM LIMITED**

SURENDER GUPTA
VICE PRESIDENT – LEGAL & COMPANY SECRETARY
FCS - 2615
rswm.investor@lnjbhilwara.com

Encl.: As above.

(Formerly Rajasthan Spinning & Weaving Mills Limited)

Corporate Office:
Bhilwara Towers, A-12, Sector-1
Noida-201 301 (NCR-Delhi), India
Tel. : +91-120-4390300 (EPABX)
Fax : +91-120-4277841
Website : www.rswm.in
GSTIN:09AAACR9700M1Z1

Regd. Office:
Kharigram, P.O. Gulabpura – 311 021
District Bhilwara, Rajasthan, India
Tel.: +91-1483-223144 to 223150, 223478
Fax: +91-1483-223361, 223479
Website : www.rswm.in
GSTIN:08AAACR9700M1Z3

Corporate Identification Number:L17115RJ1960PLC008216

PSPCL Punjab State Power Corporation Limited
 (Regd. Office PSEB Head Office, The Mall Patiala)
 Corporate Identification Number (CIN): U40109PB2010SGC033813
 Website: www.pspcl.in (Phone No. 01881-275289) E-mail: se-hq-ggsstp-ropar@pspcpl.in
E-Tender (Short Term) Enq. No. 542/P-2/EMPW-12733 Dated: 17.07.2024

Dy.Chief Engineer/ Headquarter (Purchase Cell-2) GGSSTP, Rupnagar invites E-Tender ID No. 2024_POWER_124109_1 for Annual Contract for Rewinding/ Re-caging/ Re-slaggering and other repairs of HT Motors of GGSSTP, Rupnagar.

For detailed NIT & Tender Specification please refer to <https://eproc.punjab.gov.in> from 18.07.2024 onwards.

Note: Corrigendum and addendum, if any, will be published online at <https://eproc.punjab.gov.in>.

76155/12/3172/2023/36027 **RTP 67/24**

HeidelbergCement India Limited
 CIN: L26942HR1958FLC042301
 Regd. Office: 2nd Floor, Block-B, DLF Cyber Greens, DLF Cyber City, Phase-III Gurugram, Haryana -122002
 Tel.: Ph. +91 0124-4503700, Fax +91 0124-4147698
 Email Id: investors.mcl@mycem.in; Website: www.mycemco.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS FOR TRANSFER OF UNCLAIMED DIVIDEND & UNDERLYING SHARES TO INVESTOR EDUCATION & PROTECTION FUND (IEPF) AUTHORITY

Shareholders are hereby informed that pursuant to the provisions of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules"), as amended, the final dividend declared for the Financial Year 2016-17 which remained unclaimed for a period of seven years will be due to be credited on 28 October 2024. The underlying shares on which dividends were unclaimed for seven consecutive years will also be transferred as per the procedure set out in the Rules.

In compliance with the Rules, individual notices have been sent to all the concerned shareholders on 25 July 2024 whose unclaimed dividend & underlying shares are liable to be transferred to IEPF as per the aforesaid rules, the full details of such shareholders is made available on the Company's Website : <https://www.mycemco.com/investor-information> In this connection, please note the following:

1) In case you hold shares in physical form: Duplicate share certificate(s) in lieu of original share certificate(s) held by the shareholder, will be issued and transferred in favour of IEPF Authority on completion of necessary formalities. The original share certificate(s) which stand registered in the name of shareholder will be deemed cancelled and non-negotiable.

2) In case you hold shares in electronic form: The demat account will be debited for the shares liable for transfer to IEPF Authority. The Company shall transfer the shares by way of corporate action through the Depositories to the IEPF Authority.

In the event valid claim is not received on or before 25 October 2024, the Company will proceed to transfer the liable dividend and underlying Equity shares in favor of IEPF authority without any further notice. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF pursuant to the said rules. It may be noted that the concerned shareholders can claim the shares and dividend from IEPF authority by making an application in the prescribed Form IEPF-5 available on the website www.iepf.gov.in and sending a physical copy of the same to Integrated Registry Management Services Private Limited (Registrar and Transfer Agent) or the Nodal Officer of the Company along with the requisite documents enumerated in form IEPF-5.

For any queries on the above matter, shareholders are requested to contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Mr. Harish K, Chief Manager, at M/s. Integrated Registry Management Services Private Limited Unit: HeidelbergCement India Limited, No. 30, Ramana Residency, 4th Cross, Sampige Road, Malleswaram, Bengaluru - 560 003, Phone: 080 - 23460815 to 816; Fax: 080 - 23460819; Email: bjlsta@integratedindia.in & irg@integratedindia.in

For HeidelbergCement India Limited
 Sd/-
 Ravi Arora
 Vice President- Corporate Affairs &
 Company Secretary

Place : Gurugram
 Date : 25 July 2024

RSWM LIMITED
 CIN:L1715RJ960PLC008216
 Registered Office: Kharigram,
 P.O. Gulabpura-311021, Distt. Bhilwara,
 Rajasthan; Phone: +91-1483-223144 to 223150, 223478
 Fax: +91-1483-223361, 223479
Corp. Off.: Bhilwara Towers, A-12, Sector-1, Noida-201301 (U.P)
 Phone: +91-120-4390300 (EPABX), Fax: +91-120-4277841
 E-mail: rswm.investor@lnjhbhilwara.com; Website: www.rswm.in

NOTICE TO SHAREHOLDERS
TRANSFER OF UNPAID DIVIDEND IN RESPECT OF FY 2016-17 AND THE UNDERLYING SHARES ON WHICH DIVIDEND IS UNPAID/ UNCLAIMED FOR 7(SEVEN) CONSECUTIVE YEARS BEGINNING FY 2016-17 TO THE IEPF (INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND)

Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 124 (6) of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("IEPF Rules 2016") as amended time to time. The IEPF Rules 2016, amongst other matters, contain provisions for transfer of all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed by the Shareholders for seven consecutive years or more in the name of Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority in the prescribed manner.

In accordance with the Rules, all the underlying shares in respect of which dividend are not paid /claimed for the last 7 (Seven) years from financial year 2016-17, have to be transferred to the Demat account of IEPF Authority.

The Company has already sent Individual notices by Registered Post at the latest available addresses of the shareholders, whose dividends are lying unclaimed for last 7 (seven) years, advising them to claim the dividends expeditiously. The Company has also uploaded full details of such shareholders including their names, folio nos. or DP ID/ Client ID, etc. on its website i.e. www.rswm.in under Investor Relation section.

Accordingly, the concerned shareholders are requested to reply and claim their entire unclaimed dividend before due date. The unclaimed dividend for the financial year 2016-17 will be due for transfer on **2nd November, 2024**. In case the Company/ Registrar and Transfer agent doesn't receive any communication from shareholders, the Company shall transfer such shares to the Demat account of IEPF Authority with a view to comply with the Rules, 2016.

We request you to claim your Dividend before the due date of transfer to avoid transfer of Shares in to IEPF.

The concerned Shareholders are requested to put their claim for the unclaimed dividend by sending a formal letter duly signed by them alongwith following documents:-

- Original cancelled cheque leaf bearing Bank A/c No., Bank Name, IFSC code and the Name of Shareholder printed over it.
- Self-attested copy of PAN.
- Self-attested copy of Aadhaar/ Passport/ Utility Bill (not older than 3 months old) as address proof.

No claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend and equity shares transferred to the IEPF Authority. Shareholders may note that shares transferred to IEPF, including all benefits accruing on such shares if any, can be claimed back from IEPF authority as per the procedures prescribed under the Rules. For any clarification on this matter, shareholders may contact Registrar and Transfer Agent;

MCS Share Transfer Agent Ltd., (Unit: RSWM Ltd.)
 F - 65, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I,
 New Delhi - 110 020
 Phone No. 011-41406149-52, Fax No. 011-41709881
 Email Id: helpdeskdelhi@mcsregistrars.com

REQUEST FOR UPDATION OF KYC, PAN, NOMINATION AND BANK ACCOUNT AND OTHER DETAILS:

We hereby further request to all the shareholders to please update their KYC and PAN, e-mail ID, present Address, Bank account detail, Nomination details including option to 'Opt-out' if any:

- With their respective Depository Participants, if shares are held by them in Demat mode or
- With Company's RTA, by submitting Forms ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13, SH-14 (as applicable) if shares are held in Physical mode, in case they have not updated the said details/ information. The said forms available on the websites i.e. www.rswm.in under Investor Relation section.

For RSWM LIMITED
 Sd/-
Surender Gupta
 Date : 25th July, 2024 V P Legal & Company Secretary
 Place : Noida (U.P.) FCS : 2615
 Email: rswm.investor@lnjhbhilwara.com

TNPPL TAMIL NADU NEWSPRINT AND PAPERS LIMITED
 CIN : L22121TN1979PLC007799
 Regd. Office : 67, Mount Road, Guindy, Chennai - 600 032.
 Tel : 044-22354415-17, 044-22301094-98. Fax : 044-22350834, 044-22354614.
 E-mail : invest_grievances@tnpl.co.in. Website : www.tnpl.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Notice is hereby given that:

- In accordance with Section 110 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read together with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time ("Listing Regulations"), Secretarial Standard issued by the Institute of Company Secretaries of India on General Meetings ("SS-2") and the relaxations and clarifications issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India vide its Circulars and other applicable laws and regulations, if any,
 - that a Postal Ballot Notice, seeking consent of the members on the resolution (Ordinary Resolution for appointment of Dr Sandeep Saxena, I.A.S., as Chairman and Managing Director of the Company) as set out in the said notice has been sent electronically to the members whose e-mail address is registered with the Company/ M/s. Cameo Corporate Services Limited (Cameo), Registrar and Share Transfer Agent (RTA)/ Depository Participants as on Friday, 19th July, 2024 i.e. the cut-off date. The Company has completed the dispatch of Postal Ballot Notice along with the Explanatory Statement on Thursday, 25th July, 2024.
- The Postal Ballot Notice is available on the website of the Company at www.tnpl.com and on the website of the Stock Exchanges, i.e. BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com.
- The documents referred to in the Postal Ballot Notice are available for inspection to the members at the Registered Office of the Company between **10:00 a.m. (IST) and 1:00 p.m. (IST)** on any working day, except Saturdays, Sundays and public holidays, till the last date for remote e-voting by the members.
- In accordance with the applicable MCA Circulars, the Company is providing the facility to exercise the right to vote on the resolutions proposed in the said Postal Ballot Notice only by electronic means (Remote e-voting).
- Thiru R Sridharan, of M/s R Sridharan & Associates, Company Secretaries, Chennai (CP No. 3239 and FCS No.4775) has been appointed as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot in a fair and transparent manner.
- The Communication of assent or dissent of the members would take place through remote e-voting process only. The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as the agency to provide e-voting facility. Members may cast their votes during the period mentioned below:
 Commencement of remote e-voting : **Saturday, 27th July, 2024 at 9.00 A.M. I.S.T.**
 End of remote e-voting : **Sunday, 25th August, 2024 at 5.00 P.M. I.S.T.**
 Remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the e-voting module shall be forthwith disabled by CDSL upon expiry of the aforesaid period.
- Members who have not registered or who wish to update their e-mail ID, postal address, telephone/mobile numbers, Permanent Account Numbers, bank account details are requested to register/intimate the same with their Depository Participant, if the shares are held by them in electronic form and in case of members holding shares in physical form, all intimations are to be sent to M/s. Cameo Corporate Services Limited at investor@cameoindia.com
- The manner of voting remotely for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email address is provided in the notice of the Postal Ballot. The manner in which persons who have forgotten the User ID and Password, can obtain/generate the same, has also been provided in the said Notice.
- A person whose name is recorded in the Register of Members/List of Beneficial Owners as on the Cut-off date shall only be eligible for the purpose of e-voting. Voting rights of a member/beneficial owner shall be in proportion to their shareholding in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date. A person who becomes a member after the cut-off date should treat this notice for information purposes only.
- The resolution, if approved, shall be deemed to have been passed on the last date of e-voting i.e. Sunday, 25th August, 2024. The results of the e-voting will be announced on or before Tuesday, 27th August, 2024 to the stock exchanges and depositories and will be displayed on the website of the Company, the Stock Exchanges i.e. BSE, NSE and CDSL.
- Members are requested to go through the notes of the notice of Postal Ballot. In case of any query pertaining to e-voting, please visit help and Frequently Asked Questions (FAQs) section available at CDSL's website: www.evotingindia.com
- If you have any grievances or issues regarding Postal Ballot & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdsiindia.com or call at toll free no 1800 21 099 11.

Place : Chennai
 Date : 25.07.2024

For TAMIL NADU NEWSPRINT AND PAPERS LIMITED
 Sd/-
ANURADHA PONRAJ
 Company Secretary & Compliance Officer

DIPRJ/ 761 /DISPLAY/2024

FOSECO INDIA LIMITED
 Registered Office : Gat Nos 922 & 923, Sanaswadi, Taluka Shirur, District Pune - 412208.
 Tele : +91 2137 668100, Fax : +91 2137 668160
 Website : www.fosecoidia.com E-mail : investor.grievance@vesuvius.com
 Corporate Identity Number : L24294PN1958PLC011052

An ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 Accredited Company

Statement of unaudited results for the quarter and six months ended 30th June, 2024

(All figures in Rupees Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Current	Corresponding	Current
		3 months ended 30th June, 2024 Unaudited	3 months ended in the previous year 30th June, 2023 Unaudited	Year to date for 6 months ended 30th June, 2024 Unaudited
1	Total Income from Operations (gross)	12,905.13	12,658.13	25,518.42
2	Net Profit for the period (before tax and exceptional items)	2,497.24	2,184.25	4,623.37
3	Exceptional Items Income (net) (Note 3)	-	1,148.50	-
4	Net Profit for the period before tax (after exceptional items)	2,497.24	3,332.75	4,623.37
5	Net Profit for the period after tax (after exceptional items)	1,850.31	2,766.46	3,435.03
6	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	1,847.57	2,756.83	3,429.54
7	Paid-up Equity Share Capital (Rs. 10/- share face-value)	638.65	638.65	638.65
8	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-
9	Earnings Per Share (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted	28.97	43.32	53.79

NOTES:

- The results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Company's Board of Directors at their respective meetings held on 25th July, 2024. The Statutory Auditors have conducted a limited review of these financial results and have issued an unmodified report.
- The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations And Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of financial results are available on the website of the Company www.fosecoidia.com and also on the websites of the Stock Exchanges, namely BSE Limited, www.bseindia.com, and the National Stock Exchange of India Limited, www.nseindia.com.
- During the quarter ended 30th June, 2023, the Company surrendered the lease-hold land situated at Akurdi, Chinchwad, Pune together with the structure standing thereon on "as is where is" basis as regards the physical attributes thereof, to Greaves Cotton Limited ("the Lessor") and terminated the leases against a consideration of Rs. 1,200 lakhs plus applicable taxes and recognised a gain of Rs 1,148.50 lakhs. Subsequent to the completion of the aforesaid transaction in the quarter ended 31st December, 2023, the management had written back certain expenses which were provided for earlier towards the cost to complete the transaction to the extent of Rs 40 lakhs.
- Previous period figures have been reclassified, wherever necessary, to conform with current period's classification.

For **FOSECO INDIA LIMITED**
Prasad Chavare
 Managing Director &
 Chief Executive Officer
 DIN : 08846863

Date : 25th July, 2024
 Place : Pune

Jyothy labs
JYOTHY LABS LIMITED
 (CIN : L24240MH1992PLC128651)
 Registered Office: Ujala House, Ramakrishna Mandir Road, Kondivita, Andheri East, Mumbai 400059.

STATEMENT OF STANDALONE / CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024

(Rs. in lacs)

Particulars	Standalone				Consolidated			
	Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended		Year Ended	
	30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024	30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024
	Unaudited	Audited (Note 2)	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited (Note 2)	Unaudited	Audited
Total Income from operations (net)	74,118	65,925	68,640	2,75,403	74,181	65,999	68,710	2,75,693
Net Profit before tax	13,250	10,727	12,138	47,892	13,237	10,723	12,129	47,884
Net Profit after tax	10,183	7,820	9,635	36,989	10,169	7,815	9,625	36,930
Total comprehensive income for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	10,160	7,708	9,642	36,897	10,111	7,705	9,624	36,832
Paid up Equity Share Capital	3,672	3,672	3,672	3,672	3,672	3,672	3,672	3,672
Reserves (excluding Revaluation Reserves)				1,10,451				1,77,159
Earnings Per Share of face value Re 1/- each								
Basic earnings per share (Rs)	2.77	2.13	2.62	10.07	2.77	2.13	2.62	10.06
Diluted earnings per share (Rs)	2.77	2.13	2.62	10.07	2.77	2.13	2.62	10.06
	Not	Not	Not	Not	Not	Not	Not	Not
	Annualised	Annualised	Annualised	Annualised	Annualised	Annualised	Annualised	Annualised

Notes :

- The above unaudited financial results of the Company for the quarter ended June 30, 2024 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on July 25, 2024. Further, Ms. M. R. Jyothy, Chairperson and Managing Director of the Company is duly authorized by the Board of Directors of the Company to sign the aforesaid financial results for the quarter ended June 30, 2024.
- The figures for the quarter ended March 31, 2024 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and unaudited figures upto the third quarter. Also the figures upto the third quarter had been reviewed and not subject to audit.
- For more details on results, visit investor center section of the Company's website at www.jyothy.com and financial result under corporates section of Stock Exchange's Website at www.nseindia.com and www.bseindia.com.

For and on behalf of the Board of Directors

Place : Mumbai
 Date : July 25, 2024

M. R. Jyothy
 Chairperson and Managing Director
 DIN : 00571828

रीसाइकिल्ड स्क्रैप धातु से तांबा, एल्यूमीनियम, पीतल और विभिन्न मिश्र धातुओं में अलौह धातु उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला का निर्माण करती है 'राजपूताना इंडस्ट्रीज लिमिटेड'

30 जुलाई को खुलकर 1 अगस्त 2024 को बंद होगा कंपनी का आईपीओ



बिजनेस रेमेडीज/जयपुर।

जयपुर आधारित 'राजपूताना इंडस्ट्रीज लिमिटेड' रीसाइकिल्ड स्क्रैप धातु से तांबा, एल्यूमीनियम, पीतल और विभिन्न मिश्र धातुओं में अलौह धातु उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला का निर्माण करती है। कंपनी द्वारा कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के वित्तपोषण, गिड सौर ऊर्जा उत्पादन प्रणाली की खरीद और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म पर आईपीओ लाया जा रहा है। बिजनेस रेमेडीज की टीम ने कंपनी के प्रोस्पेक्टस से कंपनी की कारोबारी गतिविधियों के संबंध में जानकारी हासिल की।

यह करती है कंपनी: राजपूताना इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना 2011 में हुई थी और रीसाइकिल्ड स्क्रैप धातु से तांबा, एल्यूमीनियम, पीतल और विभिन्न मिश्र धातुओं में अलौह धातु उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्माण करती है। कंपनी खुले बाजारों से प्राप्त स्क्रैप धातु से एल्यूमीनियम, तांबा या पीतल आदि धातुओं के बिलेट्स बनाती है।

कंपनी द्वारा बढ़ाया स्क्रैप धातु को राजस्थान के सीकर स्थित कंपनी की अपनी विनिर्माण सुविधा में रीसाइकिलिंग के माध्यम से बिलेट्स में संसाधित किया जाता है। कंपनी इन बिलेट्स को विभिन्न विनिर्माण कंपनियों को बेचती है या तांबे की छड़ें, एल्यूमीनियम छड़ें, तांबे की मदर ट्यूब, पीतल के तार, सुपर-एनामल्ड तांबे के कंडक्टर और कई अन्य उत्पादों जैसे उत्पादों के निर्माण के लिए उनका उपयोग करती है। इन तारों, ट्यूबों, छड़ों, बिलेट्स और बारों का निर्माण ग्राहकों की आवश्यकताओं और/या बाजार में मांग के अनुसार विभिन्न आकारों और आकारों में किया जाता है। अपने उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए, कंपनी केबलों के उत्पादन में प्रवेश कर रही है, जिनका उपयोग मुख्य रूप से निर्माण उद्योग में, विशेष रूप से आवासीय निर्माण में और मोटरों के लिए पानी के नीचे केबल के रूप में किया जाता है। नियोजित केबल प्लांट को उत्पादन संयंत्र के अतिरिक्त स्थान का उपयोग करके कंपनी की मौजूदा उत्पादन सुविधा में स्थापित किया जाना है।

10 जुलाई, 2024 तक, कंपनी में 98 पूर्णकालिक कर्मचारी थे, जिनमें लेखांकन और वित्त, अनुपालन, रखरखाव, विपणन और रसद, उत्पादन और संचालन, गुणवत्ता, अधिकारी और स्थायी कर्मचारी के क्षेत्र के कर्मचारी शामिल थे।

वित्तीय प्रदर्शन: वित्त वर्ष 2022 में कंपनी ने कुल राजस्व 244.50 करोड़ रुपये एवं 2.63 करोड़ रुपये का कर पश्चात शुद्ध लाभ, वित्त वर्ष 2023 में 255.24 करोड़ रुपये का राजस्व एवं 3.09 करोड़ रुपये का कर पश्चात शुद्ध लाभ और वित्त वर्ष 2024 में कंपनी ने 327.01 करोड़ रुपये का राजस्व एवं 5.12 करोड़ रुपये का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया है। कंपनी के वित्तीय परिणामों से स्पष्ट है कि कंपनी का कर पश्चात शुद्ध लाभ वर्ष दर वर्ष बढ़ रहा है।

वित्त वर्ष 2024 में कंपनी का कर पश्चात शुद्ध लाभ मार्जिन 1.57 फीसदी दर्ज किया गया है। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी की कुल असेट्स 149.74 करोड़ रुपये, नेटवर्थ 32.57 करोड़ रुपये और कुल कर्ज 29.36 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है। कंपनी का कर्ज नेटवर्थ से कम है। इस आधार पर कह सकते हैं कि कंपनी पर कर्ज भार अधिक नहीं है।

आईपीओ के संबंध में जानकारी: 'राजपूताना इंडस्ट्रीज लिमिटेड' का आईपीओ एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म पर 30 जुलाई को खुलकर 1 अगस्त 2024 को बंद होगा। कंपनी द्वारा बुक बिल्ट इश्यू प्रणाली से 10 रुपये फेसवैल्यू के 62,85,000 शेयर और रसद, उत्पादन और संचालन, 36 रुपये से 38 रुपये प्रति

IPO Date	July 30, 2024 to August 1, 2024
Listing Date	August 6, 2024.
Face Value	₹10 per share
Price Band	₹36 to ₹38 per share
Lot Size	3000 Shares
Total Issue Size	6,285,000 shares (aggregating up to ₹23.88 Cr)
Fresh Issue	6,285,000 shares (aggregating up to ₹23.88 Cr)
Issue Type	Book Built Issue IPO
Listing At	NSE SME
Share holding pre issue	15,930,000
Share holding post issue	22,215,000
Market Maker portion	360,000 shares Holani Consultants

प्रवर्तकों का अनुभव

कंपनी की कॉर्पोरेट प्रमोटर शेरा एनर्जी लिमिटेड है।

52 वर्षीय शिवानी शेख कंपनी की प्रमोटर, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। उनके पास पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (म.प्र.) से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, ऑनर्स की डिग्री है। उनके पास धातु उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। पढ़ाई के बाद, उन्होंने 1998 में मेसर्स शिवानी इलेक्ट्रिकल नाम से पार्टनरशिप फर्म शुरू की और जनवरी, 2008 में जयपुर में मेसर्स एस.एस. स्ट्रक्चर नाम से अपनी खुद की प्रोप्राइटरशिप फर्म की स्थापना की। वे शेरा समूह के वित्त और हेजिंग स्ट्रैटेजी प्रबंधन की योजना की देखरेख करती हैं। उन्हें बिजनेस कनेक्ट द्वारा वर्ष 2023 की 10 सबसे प्रेरणादायक बिजनेस महिला श्रेणी के तहत प्रशंसा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। वे व्यवसाय के संचालन में सी य रूप से लगी हुई हैं। गुणवत्ता का सार उनके सोचने, योजना बनाने और काम करने के तरीके में गहराई से निहित है। वे कर्मचारियों के साथ अच्छी तरह से जुड़ी हुई हैं और कंपनी के कर्मचारियों एवं प्रबंधन के बीच एक सेतु का काम करती हैं।

53 वर्षीय शेख नसीम कंपनी के प्रमोटर और पूर्णकालिक निदेशक हैं। वे पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (म.प्र.) से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (ऑनर्स), इलेक्ट्रिकल में योग्यता धारक हैं। वे एक व्यक्ति विभिन्न यांत्रिक समस्याओं के निवारण में सफल तकनीकी अंतर्दृष्टि के साथ तैयार हुए हैं। उनके पास धातु उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने 1998 में रतनगढ़ में अपनी पत्नी के साथ 'शिवानी इलेक्ट्रिकल' नाम से ट्रांसफार्मर के निर्माण की एक छोटी इकाई शुरू की थी। मशीनरी और प्रौद्योगिकी के प्रति उनके स्पष्ट कौशल ने उन्हें विद्युत तार उद्योग और अलौह धातु और उद्योग में लगातार नवाचार करने के लिए प्रेरित किया है। किसी अग्रणी कॉर्पोरेट के साथ किसी आकर्षक वाहक अवसर में शामिल होने के बजाय मिश्र धातु उद्योग व्यवसाय में कारोबारी विस्तार करने के लिए वे 2002 में जयपुर चले आए और 'शेरा मेटल्स एंड इंजीनियर्स' नाम से एक प्रोप्राइटरशिप फर्म शुरू की। इसके बाद उन्होंने वर्ष 2009 में शेरा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोली। यही कंपनी आज एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म पर सफलतापूर्वक लिस्टेड है और निवेशकों को अच्छा मुनाफा प्रदान कर रही है।

गुणवत्ता, अधिकारी और स्थायी कर्मचारी के क्षेत्र के कर्मचारी शामिल थे।

शेयर के भाव पर जारी कर मैनैजर कंपनी होलानी 23.88 करोड़ रुपये जुटाए जा रहे हैं। आईपीओ का मार्केट लॉट साइज 3000 शेयरों का है। आईपीओ का प्रबंधन प्रमुख लीड नहीं है।

आर एस डब्ल्यू एम लिमिटेड
सीआइएन: LU715SRJ960PLCO08216
पंजीकृत कार्यालय: खारीग्राम, पोस्ट गुलाबपुरा-311021
जिला मीलवाड़ा, राजस्थान
फोन: +91-1483-223144 से 223150, 223478, फैक्स: +91-1483-223361, 223479
कॉर्पोरेट कार्यालय: मीलवाड़ा टॉवर, ए-12, सेक्टर-1, नोएडा-201301 (उ.प्र.)
फोन: +91-120-4390300 (EPABX), फैक्स: +91-120-4277841
ईमेल: rswm.investor@nljibhilwara.com; वेबसाइट: www.rswm.in

अंशधारकों हेतु सूचना

वित्तीय वर्ष 2016-17 के संबंध में अदत्त लामांश एवं ऐसे अंतर्निहित अंश जिनपर वित्तीय वर्ष 2016-17 से लगातार 7 (सात) वर्षों से लामांश अदत्त/गैरदावाकृत है को आईपीएफ (विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि) में हस्तांतरण
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के साथ पठित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिवेदन) नियम, 2016 ('आईपीएफ नियम 2016') और समय-समय पर संशोधित, के प्राधान्यों के अनुपालन में एतद् द्वारा सूचना दी जाती है। आईपीएफ नियम 2016 में, अन्य मामलों के अतिरिक्त, ऐसे सभी अंशों, जिनके सम्बन्ध में लगातार सात वर्षों से लामांश की अदायगी अथवा अंशधारकों द्वारा दावा नहीं किया गया हो, को विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईपीएफ) प्राधिकरण को निर्धारित तौर पर हस्तांतरण हेतु प्राधान्य शामिल हैं। नियमों के अनुसार, ऐसे सभी अंतर्निहित अंशों को, जिनके सम्बन्ध में गत 7 (सात) वर्षों, वित्तीय वर्ष 2016-17 से लामांश की अदायगी/दावा नहीं किया गया है, को आईपीएफ के डीमैट खाते में हस्तांतरित किया जाना है।

कम्पनी ने ऐसे अंशधारकों, जिनके लामांश का दावा गत (7) सात वर्षों से नहीं किया गया है, को शीघ्र लामांश का दावा करने हेतु सलाह देते हुए, उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर पंजीकृत डाक के माध्यम से व्यक्तिगत सूचना पहले ही प्रेषित कर दी है। कम्पनी ने ऐसे सभी अंशधारकों का पूर्ण विवरण, उनका नाम, फोलियो नंबर अथवा डीपी आईडी/क्लाइंट आईडी सहित, अपनी वेबसाइट अर्थात् www.rswm.in पर भी निवेशक अनुभाग के अंतर्गत अपलोड कर दिया है। तदनुसार, संबंधित अंशधारकों से अनुरोध है कि वे उत्तर दें तथा अपने सभी लामांश का दावा नियत तिथि से पूर्व कर लें। वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु गैरदावाकृत लामांश 2 नवम्बर, 2024 को हस्तांतरण हेतु देय हो जाएगा। यदि कम्पनी/रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट को अंशधारकों से कोई संवादा प्राप्त नहीं होता है तो कम्पनी नियम, 2016 का पालन करने की दृष्टि से कम्पनी ऐसे अंशों को आईपीएफ के डीमैट खाते में स्थानांतरित कर देगी।

आईपीएफ में शेयरों के हस्तांतरण से बचने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हस्तांतरण की नियत तारीख से पूर्व अपने लामांश का दावा करें। सम्बद्ध अंशधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ विधिवत हस्तांतरण एक औपचारिक पत्र भेजकर गैरदावाकृत लामांश पर अपना दावा प्रस्तुत करें:

- मूल रकम किए गए चेक की प्रति जिसपर बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम, IFSC कोड एवं अंशधारक का नाम मुद्रित हो।
- पैन की स्व-सत्यापित प्रतिलिपि।
- पता प्रमाण के तौर पर आधार/पासपोर्ट/उपयोगिता बिल (3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं) की स्व-सत्यापित प्रतिलिपि।

आईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित गैरदावाकृत लामांश एवं समता अंशों के संबंध में कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा।

अंशधारक कृपया ध्यान दें कि आईपीएफ को हस्तांतरित अंशों को सभी एकत्रित लामांश सहित, यदि हो, आईपीएफ प्राधिकरण से नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार, पुनः दावा कर के प्राप्त किया जा सकता है। इस मामले पर किसी भी स्पष्टीकरण हेतु, अंशधारक रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट से संपर्क कर सकते हैं:

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, (यूनिट: आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड)
एफ-65, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020,
फोन नंबर: 011-41406149-52, फैक्स नंबर: 011-41709881
ईमेल आईडी: helpdeskdelhi@mcsregistrars.com

KYC, पैन, नामांकन और बैंक खाता एवं अन्य विवरण के अद्यतन करने हेतु अनुरोध:

हम सभी अंशधारकों से आगे अनुरोध करते हैं कि कृपया अपनी केवाईसी एवं पैन, ईमेल आईडी, वर्तमान पता, बैंक खाता विवरण, नामांकन विवरण सहित 'ऑप्ट-आउट' का विकल्प यदि कोई हो तो अद्यतनित करें:

क) अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ, यदि अंश उनके द्वारा डीमैट मोड में प्रतिरक्षित हैं या
ख) कम्पनी के आरटीए के साथ, फॉर्म ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13, SH-14 (जैसा लागू हो) जमा करके, यदि अंश मौखिक मोड में प्रतिरक्षित हैं, यदि उन्होंने उक्त विवरण/जानकारी अद्यतनित नहीं किया है। चक्र प्रपत्र वेबसाइट अर्थात् www.rswm.in पर निवेशक अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है।

कृते आर एस डब्ल्यू एम लिमिटेड
हस्ता/-
सुरेन्द्र गुप्ता
दिनांक: 25 जुलाई, 2024
स्थान: नोएडा (उ.प्र.)
वी पी लीगल एवं कम्पनी सचिव
एफसीएस: 2615
ईमेल: rswm.investor@nljibhilwara.com

अकुम्स इंस एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड का आईपीओ 30 जुलाई को खुलेगा

बिजनेस रेमेडीज। अकुम्स इंस एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ('AKUMS' या 'कंपनी'), का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) मंगलवार, 30 जुलाई, 2024 को खुलेगा। यह एक अगस्त को बंद होगा। इस ऑफर में कंपनी द्वारा इतनी संख्या में इक्विटी शेयर (प्रत्येक का अंकित मूल्य 2 रुपये) का नया निर्गम शामिल है, जिसका कुल मूल्य 680 करोड़ रुपये है ('फ्रेज इश्यू') और कंपनी के कुछ मौजूदा शेयरधारकों ('बिक्री करने वाले शेयरधारक') द्वारा 17,330,435 इक्विटी शेयर ('फ्रेज किए गए शेयर') का ऑफर फॉर सेल शामिल है। एंकर निवेशकों के लिए आईपीओ सोमवार, 29 जुलाई, 2024 को खुलेगा और इसी दिन बंद होगा। आम निवेशकों के लिए इश्यू मंगलवार, 30 जुलाई, 2024 को खुलेगा



और गुरुवार, 1 अगस्त, 2024 को बंद होगा। ('बोली विकरण') ऑफर का मूल्य बैंड 646 से 679 रुपये प्रति इक्विटी शेयर ('मूल्य बैंड') तय किया गया है। न्यूनतम 22 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद 22 इक्विटी शेयरों के गुणकों में बोलियां लगाई जा सकती हैं ('न्यूनतम बोली लॉट')। कंपनी इक्विटी शेयरों के नए निर्गम से मिली रकम का उपयोग (i) अपनी सहायक कंपनियों अर्थात् मैक्सक्योर न्यूट्रोवैटिक्स लिमिटेड और च्योर एंड क्योर हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के ऋण की चुकौती/पूर्व भुगतान; (iii) कंपनी की वृद्धिशील कार्यशील पूंजी जरूरतों के लिए फाइनेंस जुटाने; (iv) अधिग्रहण के माध्यम से इनआर्गनिक विकास पहलों को आगे बढ़ाने; और (1) सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, सिटीग्रुव ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एचिबिट प्राइवेट लिमिटेड ऑफर के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं ('BRLMs')।

(This is a public announcement for information purposes only and is not a Prospectus announcement) (This does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe for securities. Not for publication or distribution, directly or indirectly outside India.)



Our Company was incorporated as "RAJPUTANA INDUSTRIES PRIVATE LIMITED", a private limited company under the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated June 13, 2011, issued by ROC, Rajasthan. Thereafter, our Company was converted from a private limited company to a public limited company, pursuant to a resolution passed in the extraordinary general meeting of our Shareholders held on April 21, 2023, and consequently, the name of our Company was changed to "Rajputana Industries Limited" by deletion of the word "Private". A fresh certificate of incorporation consequent upon conversion from private company to public company dated May 04, 2023, was issued by the Registrar of Companies, Jaipur, Rajasthan to our Company bearing Corporate Identification Number "U31909RJ2011PLC035485". For details of Incorporation, change of name and registered office of our company, please refer to chapter titled "History and Certain Corporate Matters" beginning on page 173.

Registered & Corporate Office: F-269-(B), Road No. 13, VKIA, Jaipur Rajasthan 302013
Tel No: +91 - 9588841031 | Email: cs@rajputanaindustries.com | Website: www.rajputanaindustries.com
Contact Person: Mrs. Sonal Jain, Company Secretary and Compliance Officer | CIN: U31909RJ2011PLC035485

PROMOTERS OF THE COMPANY: SHERA ENERGY LIMITED, ISHA INFRAPOWER PRIVATE LIMITED, MR. SHEIKH NASEEM AND MRS. SHIVANI SHEIKH

THE ISSUE

INITIAL PUBLIC OFFER OF UPTO 62,85,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF RAJPUTANA INDUSTRIES LIMITED ("OUR COMPANY" OR "COMPANY" OR "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE), AGGREGATING UPTO ₹ [●] LAKHS ("THE ISSUE"). THIS ISSUE INCLUDES A RESERVATION OF UP TO 3,60,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [●] LAKHS (CONSTITUTING UP TO [●] % OF THE POST-ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY) FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION") UP TO 30,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [●] LAKHS (CONSTITUTING UP TO [●] % OF THE POST-ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY) FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE EMPLOYEES ("THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION") AND UP TO 3,00,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [●] LAKHS (CONSTITUTING UP TO [●] % OF THE POST-ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY) FOR SUBSCRIPTION BY THE SHERA ENERGY LIMITED SHAREHOLDERS ("THE SHERA ENERGY LIMITED SHAREHOLDERS RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION, EMPLOYEE RESERVATION PORTION AND SHERA ENERGY LIMITED SHAREHOLDERS RESERVATION PORTION IS HERINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE [●] % AND [●] % RESPECTIVELY OF THE FULLY DILUTED POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGER, HAS UNDERTAKEN A PRE-IPO PLACEMENT OF 6,00,000 EQUITY SHARES FOR CASH CONSIDERATION AGGREGATING TO ₹ 228 LAKHS. THE SIZE OF THE FRESH ISSUE AS DISCLOSED IN THE DRAFT RED HERRING PROSPECTUS, AGGREGATING UP TO 68,85,000 EQUITY SHARES, HAS BEEN REDUCED BY 6,00,000 EQUITY SHARES PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT, AND ACCORDINGLY, THE FRESH ISSUE IS FOR AN AGGREGATE UP TO 62,85,000 EQUITY SHARES AND THE MINIMUM ISSUE SIZE SHALL CONSTITUTE AT LEAST 10% OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY, IN COMPLIANCE WITH RULE 19(2)(B) OF THE SCRR.

ADDENDUM OF THE RED HERRING PROSPECTUS DATED JULY 23, 2024 ("RHP")

NOTICE TO INVESTORS ("ADDENDUM TO THE RHP")
This is with further reference to the RHP dated July 23, 2024, filed by the Company with the ROC. Potential bidders may note the following: The following should be added under the chapter titled "Issue Procedure" on page number 362 of the Red Herring Prospectus:

ALLOTMENT PROCEDURE AND BASIS OF ALLOTMENT

The Allotment of Equity Shares to Bidders other than Retail Individual Investors and Anchor Investors may be on proportionate basis. For Basis of Allotment to Anchor Investors, Bidders may refer to RHP. No Retail Individual Investor will be Allotted less than the minimum Bid Lot subject to availability of shares in Retail Individual Investor Category and the remaining available shares, if any will be Allotted on a proportionate basis. The Issuer is required to receive a minimum subscription of 90% of the Issue. However, in case the Issue is in the nature of Offer for Sale only, then minimum subscription may not be applicable.

- Flow of Events from the closure of bidding period (T DAY) Till Allotment:**
- On T Day, RTA to validate the electronic bid details with the depository records and also reconcile the final certificates received from the Sponsor Bank for UPI process and the SCSBs for ASBA and Syndicate ASBA process with the electronic bid details.
 - RTA identifies cases with mismatch of account number as per bid file/ Final Certificate and as per applicant's bank account linked to depository demat account and seek clarification from SCSBs to identify the applications with third party account for rejection.
 - Third party confirmation of applications to be completed by SCSBs on T + 1 day.
 - RTA prepares the list of final rejections and circulate the rejections list with BRLM/ Company for their review/ comments.
 - Post rejection, the RTA submits the basis of allotment with the Designated Stock Exchange (DSE).
 - The Designated Stock Exchange (DSE), post verification approves the basis and generates drawal of lots wherever applicable, through a random number generation software.
 - The RTA uploads the drawal numbers in their system and generates the final list of allottees as per process mentioned below:

PROCESS FOR GENERATING LIST OF ALLOTTEES: -

- Instruction is given by RTA in their Software System to reverse category wise all the application numbers in the ascending order and generate the bucket/batch as per the allotment ratio. For example, if the application number is 87654321 then system reverses it to 12345678 and if the ratio of allottees to applicants in a category is 2:7 then the system will create lots of 7. If the drawal of lots provided by Designated Stock Exchange (DSE) is 3 and 5 then the system will pick every 3rd and 5th Application in each of the lot of the category and these applications will be allotted the shares in that category.
- In categories where there is proportionate allotment, the Registrar will prepare the proportionate working based on the over subscription times.
- In categories where there is undersubscription, the Registrar will do full allotment for all valid applications.
- On the basis of the above, the RTA will work out the allottees, partial allottees and non-allottees, prepare the fund transfer letters and advice the SCSBs to debit or unblock the respective accounts.

Accordingly, the Chapter "Issue Procedure" on page 362 RHP shall stand updated accordingly. Further, the RHP dated July 23, 2024 filed with ROC, can be accessed through the link on the website of Holani Consultants Private Limited at www.holaniconsultants.co.in, from the website of Rajputana Industries Limited at www.rajputanaindustries.com, from the website of Stock Exchange i.e. NSE at www.nseindia.com and from the website of SEBI at www.sebi.gov.in.

The above addition is to be read in conjunction with the RHP and accordingly their references in the RHP stand amended pursuant to this Addendum to the RHP. The information in this Addendum to the RHP supplements the RHP and updates the information in the RHP, as applicable. However, please note that this Addendum does not reflect all the changes that have occurred between the date of filing of the RHP and the date hereof, and the information included in the RHP will suitably updated, including to the extent stated in this Addendum to the RHP, as may be applicable in the Prospectus, as and when filed with the ROC, SEBI and the Stock Exchange.

All Capitalized terms used in this Addendum to the RHP shall, unless the context otherwise requires, have the meaning ascribed to them in the RHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER	REGISTRAR TO THE ISSUE
<p>HOLANI CONSULTANTS PRIVATE LIMITED 401-405 & 416-418, 4th Floor, Soni Paris Point, Jai Singh Highway, Bani Park, Jaipur - 302016 Tel No.: +91 0141-2203996 Email: ipo@holaniconsultants.co.in Website: www.holaniconsultants.co.in Contact Person: Mrs. Payal Jain SEBI Registration No.: INM000012467 Investor Grievance E-mail: complaints.redressal@holaniconsultants.co.in</p>	<p>BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED Office No. S-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Mahakali Caves Road, Next to Ahura Centre, Andheri (East), Mumbai - 400093 Tel: +91 022-6263 8200 Fax: +91 022-6263 8299 Website: www.bigshareonline.com Email: ipo@bigshareonline.com Investor Grievance ID: investor@bigshareonline.com Contact Person: Mr. Jibu John SEBI Registration Number: INR000001385</p>
<p>Place: Jaipur Date: July 25, 2024</p>	<p>For Rajputana Industries Limited On behalf of the Board of Directors Sd/- Shivani Sheikh Chairman and Managing Director</p>
<p>Rajputana Industries Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an Initial Public Issue of its Equity Shares and has filed the RHP dated July 23, 2024, with ROC. The RHP will be available on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, website of Stock Exchange i.e., NSE Ltd at www.nseindia.com respectively and is available on the websites of the BRLM i.e., Holani Consultants Private Limited at www.holaniconsultants.co.in. The potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, refer to the Section titled "Risk Factors" on page 31 of the RHP. Potential investors should not rely on the RHP filed with the SEBI for making any investment decision. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" on page 31 of the RHP.</p> <p>The Equity Shares have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended ("U.S. Securities Act"), and may not be issued or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being issued and sold outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation under the U.S. Securities Act and applicable laws of the jurisdictions where such issues and sales occur. There will be no public issuing in the United States.</p>	

न्यू ऐज रोल्स में AI/ML Highest paid

स्किल बेस्ड हायरिंग को ज्यादा बल मिल रहा

नई दिल्ली/एजेन्सी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जॉब न्यू ऐज रोल्स में सबसे ज्यादा पेमेंट करने वाले जॉब हैं। टेलेंट प्लेटफॉर्म फाउंडेड की रिपोर्ट के अनुसार जिन फ्रेशर्स को एआई/एमएल रोल मिल रहे हैं उनकी सैलरी सबसे ज्यादा है। एवरेज मिनिमम सैलरी 7.8 लाख से 10.3 लाख प्रतिवर्ष है। एंटी लेवल पर इस समय एआई और एमएल जॉब रोल की डिमांड मजबूत है। ऐसे में फ्रेशर्स के लिये अवसर भी बढ़े हैं।

मिड और सीनियर लेवल पर भी एआई/एमएल प्रोफेशनल्स को सबसे ज्यादा वेतन प्राप्त हो रहा है। मिड लेवल प्रोफेशनल्स जिन्हें सात से दस वर्ष का वर्क एक्सपीरियंस है, उन्हें औसत रूप से अधिकतम 28.6 लाख प्रतिवर्ष मिल रहे हैं। सॉफ्टवेयर डवलपमेंट रोल वालों को करीब 25.3 लाख रुपये मिल रहे हैं।

रिपोर्ट में न्यू ऐज रोल जैसे एआई/एमएल, क्लाउड कम्प्यूटिंग, डेटा साइंस एंड एनेलिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग, यूआई/यूएक्स डिजाइन, सॉफ्टवेयर डवलपमेंट जैसे जॉब से सैलरी ट्रेंड पता चलता है।

वर्ष 2022 से 2024 के बीच कॉर्पोरेट इन्डिया

SALARIES FOR AI AND ML JOBS




में रिक्रूटमेंट सिनेरियो में बदलाव आया है और स्किल एसेसमेंट में 41 प्रतिशत की बढ़त है।

रिपोर्ट के अनुसार मॉडर्न जॉब मार्केट में स्किल वेलेडिशन का रोल काफी अहम हो रहा है। गत वर्ष 72 प्रतिशत कम्पनियों ने केंडीडेट की एडेप्टिबिलिटी और कमिटमेंट को वैल्यू करते हुए यह भी देखा कि उसमें लॉनिंग के प्रति कितनी

भावना है। यह संख्या चालू वर्ष में 72 से बढ़कर 81 प्रतिशत हो गई है।

हायरिंग डिसेजन में कम्पनियों के लिये डिग्री के साथ अनुभव और स्किल का रोल बढ़ रहा है। इसीलिये स्किल बेस्ड हायरिंग को ज्यादा बल मिल रहा है।

फाउंडेड के सीईओ ने कहा है कि क्लाउड



कम्प्यूटिंग एसेसमेंट में 55 प्रतिशत की बढ़त है और एआई, एमएल स्किल एसेसमेंट में 50 प्रतिशत का जम्प है।

डिजिटल मार्केटिंग स्किल एसेसमेंट में 40 प्रतिशत और प्रोडक्ट मैनेजमेंट स्किल एसेसमेंट में 30 प्रतिशत का हाइक है। इंडस्ट्रीज में एआई टेक्नोलॉजी के लिये जॉब रोल बढ़ रहे हैं। गत वर्ष फ्रेशर्स के लिए इस सेक्टर में बारह प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली।

प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिये तीस प्रतिशत और डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट राइटिंग के लिये 28 प्रतिशत राइज देखने को मिला। रिपोर्ट यह ट्रेंड बता रही है कि फ्रेशर्स के लिये और सीनियर प्रोफेशनल्स के लिए एआई/एमएल में जॉब अवसर ज्यादा है और ये हाई पेमेंट भी कर रहे हैं।

रांची में टाटा समूह बनाएगा Taj होटल

रांची/एजेन्सी। रांची कोर कैपिटल में टाटा समूह की ओर से विश्वस्तरीय सुविधाओं वाले पांच सितारा 'ताज होटल' का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने टाटा इंटरप्राइज को अनुबंधी इकाई द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड को 6 एकड़ जमीन आवंटित की है। झारखंड मंत्रालय में होटल के निर्माण को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन की उपस्थिति में नगर विकास एवं आवास विभाग और द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। कोर कैपिटल साइट-1 रांची स्मार्ट सिटी में बनने वाले इस होटल में लग्जरी सुविधाओं के साथ 200 कमरे, बैंक्रेट और कॉन्फ्रेंस हॉल सहित अन्य आवश्यक संरचनाएं होंगी। इस इलाके में जीआरडीए (ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी) की ओर से बिजली, जलापूर्ति आदि सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। नगर विकास विभाग ने कुछ शर्तों के साथ होटल के लिए लीज मंजूर की है। करार के मुताबिक लीज 60 वर्षों के लिए होगा। यह अवधि पूरी होने पर और 30 वर्षों के लिए लीज का विस्तार किया जा सकेगा। होटल की कुल आय की 3.10 प्रतिशत राशि झारखंड सरकार को लीज रेंट के रूप में दी जाएगी। झारखंड सरकार के कैबिनेट ने पहले ही इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।

स्टारलिनक सेवा अब एक हजार से ज्यादा विमानों में शुरू

सेन फ्रांसिस्को/एजेन्सी

स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कहा कि किफायती इंटरनेट सेवा स्टारलिनक अब एक हजार से ज्यादा विमानों में शुरू हो गई है। कंपनी के अनुसार, स्टारलिनक यात्रियों को विमान में कदम रखते ही हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा।

एलन मस्क ने अपने एक्स पर पोस्ट किया कि विमान में स्टारलिनक का उपयोग करने से ऐसा लगता है जैसे आप हाई-स्पीड ग्राउंड फाइबर कनेक्शन पर हैं। एलन मस्क ने हाल ही में कहा था कि अफ्रीका का सिएरा लियोन देश स्टारलिनक से जुड़ने वाला 100वां और 10वां अफ्रीकी राष्ट्र बन गया है। मई में



कंपनी ने इंडोनेशिया और फिजी में स्टारलिनक लॉन्च किया था।

एलन मस्क के अनुसार, स्टारलिनक के साथ हाई-स्पीड इंटरनेट सेवा का ऑर्डर देने के लिए किसी लॉन्ग-टर्म कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है। सेटलाइट-बेस्ड इंटरनेट

सर्विस को द्वीप राष्ट्र में इंटरनेट सेवा देने के लिए श्रीलंका से शुरूआती मंजूरी भी मिल गई है। हालांकि, इंटरनेट सेवा को अभी तक भारत सरकार से मंजूरी नहीं मिली है। कमर्शियल पहलू को जॉब पूरी हो गई है, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट और नेटवर्क जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया गया है।

साथ ही, तकनीकी जरूरतों को भी देश में लाइसेंसिंग नियमों के हिसाब से परखा गया है। एक बार स्टारलिनक को मंजूरी मिल जाने के बाद, उसे ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कन्म्युनिकेशन बाय सैटेलाइट (जीएमपीसीएस) सर्विसेज लाइसेंस जारी किया जाएगा, जो देश में सैटेलाइट कन्म्युनिकेशन सर्विसेज देने के लिए जरूरी है।

Occasion के समान Holiday शॉपिंग का ट्रेंड बढ़ा



नई दिल्ली/एजेन्सी। इन्डियन ट्यूरिस्ट देश-विदेश में ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं। उपयोग हेतु आय को ट्रेवलिंग पर खर्च किया जाने लगा है। कन्सल्टिंग फर्म में ऑपरेशंस मैनेजर दस दिन कम्बोडिया ट्यूर पर जा रही हैं। उनके पास ऑफिस वियर, एथनिक वियर, कैज्युअल्स एपेरल्स ज्यादा हैं, ऐसे में हॉलीडे वियर एपेरल्स का स्टॉक कर रही है। यह नया ट्रेंड है कि लोग ट्रेवलिंग पर जाने से पूर्व अपना ट्रेवलिंग वियर, एसेसरीज अलग से परचेज करते हैं। इनमें स्नीकर्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, शॉर्ट्स, स्कर्ट, एथलीजर आदि शामिल हैं। लांग वॉक के लिए स्नीकर्स, एयरपोर्ट लुक के लिए एथलीजर, होटल, साइटसीइंग के लिये कैज्युअल्स। कहने का मतलब यह है कि आजकल ट्रेवलर्स वेकेशन ट्रिप के अनुसार लगेज पैक करते हैं। मार्केट में भी वेकेशन ट्रिप के अनुसार एपेरल, एसेसरीज, लगेज, पर्सनल केयर आइटम्स आदि उपलब्ध हो रहे हैं।

एक्जीक्यूटिव के अनुसार हॉलीडे शॉपिंग का ट्रेंड बढ़ रहा है। जिस प्रकार किसी ओकेजन के लिए शॉपिंग की जाती है, उसी प्रकार अब हॉलीडे ट्रिप के लिए भी शॉपिंग की जाती है। सूत्रों के अनुसार ट्रेवल एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए भी वेकेशन शॉपिंग का क्रेज बढ़ रहा है। बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप और रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इन्डिया की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार गत दो वर्षों में देश में कन्जम्प्शन को लेकर शिफ्टिंग चल रही है। कन्ज्यूमर्स ट्रेडिशनल परचेज के बजाय ट्रेवल एंड एंटरटेनमेंट पर स्पेंड कर रहे हैं। यही कारण है कि हाई टिकट कैटेगरीज जैसे ज्वेलरी, ड्यूरेबल्स कैटेगरीज अब म्यूचअल फंड सविंग और हॉलीडेज से प्रतिस्पर्धा कर रही है। ऐस टर्टल के चीफ एक्जीक्यूटिव के अनुसार गत एक वर्ष में ट्रेवल और ब्यूटी पर खर्च बढ़ा है। रिटेलर्स स्पेशियल ट्रेवल गियर से कन्ज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ई-कॉमर्स ने भी उपभोक्ताओं के इस ट्रेंड को नोटिस किया है। सूत्रों के अनुसार ट्रेवल वियर, सनग्लासेज, हेल्स, लगेज, ट्रेवल एसेसरीज, हॉलीडे वियर, की डिमांड बढ़ी है। अप्रैल माह में सनग्लासेज की बिक्री सत्र प्रतिशत बढ़ी है। यह तुलना अप्रैल, 2023 से की गई है। इसके अलावा को-ऑर्ड सेट्स, मैक्सि ड्रेस, ओवरसाइज टी-शर्ट्स, पैराशूट पेंट्स भी महिला खरीददारों के बीच पापुलर हैं। एथलीजर को-ऑर्ड सेट की बिक्री दो सौ प्रतिशत बढ़ी है। पुरुषों के लिए ओवर साइज टी-शर्ट, जॉर्ग्स, रिसॉर्ट शर्ट्स की बिक्री करीब 250 प्रतिशत बढ़ी है। गौरतलब है कि रिलायंस रिटेल ने समर हॉलीडेज के लिए कलेक्शन लांच किया था। कोविड के बाद लोगों में ट्रेवलिंग का क्रेज काफी बढ़ गया है। ऐसे में एथलीजर कैटेगरी को बढ़ाने का अवसर है। स्नीकर्स, एथलीजर की डिमांड हाई है। यह ट्रेंड शहरी उपभोक्ताओं के बीच ही नहीं टीयर वन और टीयर टू मार्केट्स में भी देखा जा रहा है। इससे यह भी पता चलता है कि देश में ट्रेवल एक्सपीरियंस लेने का तरीका बदल रहा है।

उभरते भारत का उभरता बैंक



एयू स्मॉल फाइनैस बैंक लिमिटेड

(CIN: L3691RJ996PLC01381)

पंजीकृत कार्यालय:- 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर 302001 राजस्थान (इंडिया)

फोन: +91-141-4110060, फैक्स: +91-141-4110090 वेबसाइट: www.aubank.in

जून 30, 2024 को समाप्त हुई तिमाही के लिए अनअंकेषित वित्तीय परिणामों का विवरण

क्र. सं.	विवरण	तिमाही समाप्त जून 30, 2024 (अनअंकेषित)	तिमाही समाप्त जून 30, 2023 (अनअंकेषित)	वार्षिक समाप्त मार्च 31, 2024 (अंकेषित)
1	परिचालनी से कुल आय	4,31,469.95	2,77,345.77	12,30,060.59
2	अवधि हेतु शुद्ध लाभ (कर,अपवाद तथा असाधारण मदों से पूर्व)	66,889.38	51,306.03	2,07,623.05
3	अवधि हेतु शुद्ध लाभ कर से पूर्व (अपवाद तथा असाधारण मदों के बाद)	66,889.38	51,306.03	1,99,942.91
4	अवधि हेतु शुद्ध लाभ कर पश्चात (अपवाद तथा असाधारण मदों के बाद)	50,257.12	38,689.63	1,53,471.90
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ/ (हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आयों को सम्मिलित करके (कर पश्चात))	नोट (ii) देखें	नोट (ii) देखें	नोट (ii) देखें
6	समतल अंश पूंजी	74,315.92	66,701.53	66,916.25
7	संचय (पुनर्मुच्य संवय शेष) जैसा कि पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनापर में दर्शाया गया है	11,89,036.90*	10,31,059.86**	11,89,036.90*
8	प्रतिभूति प्रतिभय सत्ता	5,27,063.41	3,81,617.59	3,89,878.48
9	शुद्ध संपत्ति (नोट iii देखें)	15,26,290.84	11,37,867.42	12,55,953.15
10	बकाया ऋण	8,93,113.61	7,63,681.74	5,47,937.22
11	बकाया प्रतिदेय अधिमान शेयर	-	-	-
12	ऋण द्रविक्रिटी अनुपात (नोट iii देखें)	0.27	0.30	0.27
* मार्च 31, 2024 को ** मार्च 31, 2023 को				
नोट्स -				
(i) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) अधिनियम, 2015 के अधिनियम 33 और 52 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में दायर किये गये तिमाही के वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। तिमाही के वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.nseindia.com और www.bseindia.com एवं बैंक की वेबसाइट www.aubank.in पर उपलब्ध है।				
(ii) कुल व्यापक आय और अन्य व्यापक आय से संबंधित सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है, क्योंकि Ind AS अभी तक बैंक पर लागू नहीं हुआ है।				
(iii) सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) अधिनियम, 2015 के अधिनियम 52(4) के अन्तर्गत अनुपातों की गणना के लिए कार्योपयोगी वित्तीय विवरण प्रकटीकृत हैं।				

ऋण द्रविक्रिटी अनुपात	एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता के साथ उधार / पूंजी के योग और रिजर्व और अधिधेय के अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है।
शुद्ध संपत्ति	आरबीआई द्वारा जारी मार्कर स्ट्रक्चर - एक्सपोजर नॉर्स के अनुसार गणना की गई

दिनांक : 25 जुलाई, 2024

1800 1200 1200

Follow us on [in](#) [f](#) [X](#) [v](#) /aubankindia

एयू स्मॉल फाइनैस बैंक लिमिटेड के लिए संयंत्र अग्रवाल फाउंडर, मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सीईओ

बीफ न्यूज

गूगल मैप्स ने भारत में कई नई सुविधाएं पेश कीं

नयी दिल्ली/पीटीआई। प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल ने अपने गूगल मैप्स पर कई नई सुविधाओं की पेशकश की है। इनमें इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन की सूचना, फ्लाईओवर कॉलआउट और चार-पहिया वाहन चालकों के लिए संकरी सड़क के उपयोग को कम करने के लिए एआई-संचालित रूटिंग क्षमता शामिल है। गूगल मैप्स ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जबकि उसे घरेलू कंपनी ओला मैप्स से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। गूगल मैप्स ने नई विशेषताओं की घोषणा करते हुए कहा कि यह 'मैपिंग' (मानचित्रण) के लिए एक रोमांचक समय है। गूगल ने हाल ही में एक अगस्त से डवलपर्स के लिए गूगल मैप मंच की कीमत में 70 प्रतिशत तक की कटौती करने का निर्णय लिया है। इससे कुछ सप्ताह पहले ओला के संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी भाविश अग्रवाल ने खुलकर कहा था कि भारतीय डवलपर्स को गूगल मैप्स से दूर रहना चाहिए। उन्होंने डवलपर्स को ओला मैप्स तक एक वर्ष तक मुफ्त पहुंच जैसी आकर्षक पेशकश भी की थी। ओला से कई घोषणाएं आने के तुरंत बाद कीमत घटाने के फैसले को लेकर सवाल पर गूगल मैप्स के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि हालांकि ऐसा सोचना आकर्षक है, लेकिन वास्तव में हम प्रतिस्पर्धियों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं।

साइबर सुरक्षा क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनियां मजबूत वृद्धि के लिए तैयार

नयी दिल्ली/पीटीआई। भारत का साइबर सुरक्षा बाजार 2019 से सालाना 25 प्रतिशत की दर से बढ़कर 2023 में छह अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। वैश्विक उद्यम पूंजी कंपनी एक्सेल के भागीदार प्रयांक स्वरूप का कहना है कि साइबर सुरक्षा बाजार का वैश्विक खर्च इस साल 200 अरब डॉलर को छूने के साथ भारत का आंकड़ा और बढ़ने का अनुमान है। स्वरूप ने बेंगलुरु में एक्सेल साइबरसिक्योरिटी शिखर सम्मेलन-2024 में कहा कि घरेलू बाजार में अधिक खर्च के कारण देश में साइबर सुरक्षा स्टार्टअप इकाइयों में लगातार वृद्धि होने का संभावना है। देश के साइबर सुरक्षा बाजार की क्षमता पर प्रकाश डालते हुए स्वरूप ने कहा कि भारतीय साइबर सुरक्षा स्टार्टअप वैश्विक प्रभाव डालने के लिए तैयार हैं। वे वैश्विक स्तर पर साइबर सुरक्षा पर खर्च में तीव्र वृद्धि के बीच अपनी वृद्धि की गति को जारी रखेंगे। भारत के सबसे बड़े साइबर सुरक्षा शिखर सम्मेलन में दुनियाभर से भागीदारी देखी गई। इस सम्मेलन में प्रमुख संस्थापक, वैश्विक साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और प्रमुख उद्यमों के सीआईओएसओ (मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी) शामिल हुए। स्वरूप ने कहा कि शिखर सम्मेलन के माध्यम से हमारा मिशन इस क्षेत्र की कुछ बेहतर प्रतिभाओं को एक साथ लाकर साइबर सुरक्षा संस्थापकों और संचालकों के पारिस्थितिकी तंत्र को उन्नत करना है।

आर एस डब्ल्यू एम लिमिटेड

सीआईएन: LI715RJR96PLC008216

जिला मूल कार्यालय: खाडीग्राम, पोस्ट गुलाबपुरा-311021

फोन: +91-1483-223144 से 223150, 223478, फैक्स: +91-1483-223361, 223479

कॉर्पोरेट कार्यालय: मीलवाड़ा टॉवर, ए-12, सेक्टर-1, नोएडा-201301 (उ.प्र.)

फोन: +91-120-4390300 (EPABX), फैक्स: +91-120-4278841

ईमेल: rswm.investor@injbhilwara.com; वेबसाइट: www.rswm.in

अंशधारकों हेतु सूचना

वित्तीय वर्ष 2016-17 के संबंध में अदत्त लामांश एवं ऐसे अंतर्निहित अंश जिनपर वित्तीय वर्ष 2016-17 से लगातार 7 (सात) वर्षों से लामांश अदत्त/गैरदावाकृत है को आईडीपीएफ (विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि) में हस्तांतरण कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के साथ पठित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदेय) नियम, 2016 (आईडीपीएफ नियम 2016) और समय-समय पर संशोधित, के प्रावधानों के अनुपालन में एनए द्वारा सूचना दी जाती है। आईडीपीएफ नियम 2016 में, अन्य मामलों के अतिरिक्त, ऐसे सभी अंशों, जिनके सम्बन्ध में लगातार सात वर्षों से लामांश की अदायगी अथवा अंशधारकों द्वारा दावा नहीं किया गया हो, को विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईडीपीएफ) प्राधिकरण को निर्धारित तौर पर हस्तांतरण हेतु प्रावधान शामिल हैं। नियमों के अनुसार, ऐसे सभी अंतर्निहित अंशों को, जिनके सम्बन्ध में गत 7 (सात) वर्षों, वित्तीय वर्ष 2016-17 से लामांश की अदायगी/दावा नहीं किया गया है, को आईडीपीएफ के डीमैट खाते में हस्तांतरित किया जाना है।

कम्पनी ने ऐसे अंशधारकों, जिनके लामांश का दावा गत 7 (सात) वर्षों से नहीं किया गया है, को शीघ्र लामांश का दावा करने हेतु सलाह देते हुए, उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर पंजीकृत डाक के माध्यम से व्यक्तिगत सूचना पहले ही प्रेषित कर दी है। कम्पनी ने ऐसे सभी अंशधारकों का पूर्ण विवरण, उनका नाम, फोटो नंबर अथवा डीपी आईडी/क्लाइंट आईडी सहित, अपनी वेबसाइट अर्थात् www.rswm.in पर भी निवेशक अनुभाग के अन्तर्गत उपलब्ध कर दिया है। तदनुसार, संबंधित अंशधारकों से अनुरोध है कि वे उत्तर दे तथा अपने सभी लामांश का दावा निश्चित तिथि से पूर्व कर लें। वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु गैरदावाकृत लामांश 2 नवम्बर, 2024 को हस्तांतरण हेतु देय हो जाएगा। यदि कम्पनी/रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट को अंशधारकों से कोई संवाद प्राप्त नहीं होता है तो कम्पनी नियम, 2016 का पालन करने की दृष्टि से कम्पनी ऐसे अंशों को आईडीपीएफ के डीमैट खाते में स्थानांतरित कर देगी।

आईडीपीएफ में शेरों के हस्तांतरण से बचने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हस्तांतरण की नियत तारीख से पूर्व अपने लामांश का दावा करें। सम्बद्ध अंशधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ विशिष्ट हस्ताक्षरित एक औपचारिक पत्र भेजकर गैरदावाकृत लामांश पर अपना दावा प्रस्तुत करें:

1. मूल रकम लिए गए चेक की प्रति जिसपर बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम, IFSC कोड एवं अंशधारक का नाम मुद्रित हो।
2. पैन की स्व-सत्यापित प्रतिलिपि।
3. पता प्रमाण के तौर पर आधार/पासपोर्ट/उपयोगिता बिल (3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं) की स्व-सत्यापित प्रतिलिपि।

आईडीपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित गैरदावाकृत लामांश एवं समता अंशों के संबंध में कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा।

अंशधारक कृपया ध्यान दें कि आईडीपीएफ को हस्तांतरित अंशों को सभी एकत्रित लामां सहित, यदि हो, आईडीपीएफ प्राधिकरण से नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार, पुनः दावा कर प्राप्त किया जा सकता है। इस मामले पर किसी भी स्पष्टीकरण हेतु, अंशधारक रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट से संपर्क कर सकते हैं:

एमसीएस शेर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, (यूनिट आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड) एफ-65, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020, फोन नंबर: 011-41406149-52, फैक्स नंबर: 011-41709881
ईमेल आईडी: helpdeskdelhi@mcsregistrars.com
KVC, पैन, नामांकन और बैंक खाता एवं अन्य विवरण के अद्यतन करने हेतु अनुरोध:
हम सभी अंशधारकों से आगे अनुरोध करते हैं कि कृपया अपनी केवाईसी एवं पैन, ईमेल आईडी, वर्तमान पता, बैंक खाता विवरण, नामांकन विवरण सहित 'ऑफ-आउट' का विकल्प यदि कोई हो तो अद्यतन करें:

क) अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ, यदि अंश उनके द्वारा डीमैट मोड में प्रतिलिपित हैं या

ख) कम्पनी के आरटीए के साथ, फॉर्म ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13, SH-14 (जैसा लागू हो) जमा करके, यदि अंश भौतिक मोड में प्रतिलिपित हैं, यदि उन्होंने उक्त विवरण/जानकारी अद्यतनित नहीं किया है। उक्त प्रपत्र वेबसाइट अर्थात् www.rswm.in पर निवेशक अनुभाग के अन्तर्गत उपलब्ध है।

कृते आर एस डब्ल्यू एम लिमिटेड

हस्ता/— सुरेन्द्र गुप्ता

दिनांक : 25 जुलाई, 2024

वी पी लीगल एवं कम्पनी सचिव

स्थान : नोएडा (उ.प्र.)

एफओबी: 2615

ईमेल: rswm.investor@injbhilwara.com